



वॉशिंगटन डीसी स्थित नेशनल स्ट्रहसलबलोअर डटर स्ट्रहसलबलोअरशकानून केक्षेत्र अग्रणी एनजीओ है। हम 30 साल से अधिक समय से शस्रहसलबलोअर्स को रक्षण देने और उन्हें प्रोत्साहित करने का कामशकरते रहे हैं ।

व्हिसलबलोअर कौन होता है?

स्ट्रहसलबलोअर एक ऐसा व्यस्त होता है जो भ्रष्टाचार, सरकारी अधिकारियोंकी शरितखोरी, वन्यजीव अपराध, या कानून केअन्य उघनोकी सूचना अक्सर अपनेशनिजी जोखिम पर उचित प्राधिकारियोंको देता है। कुछ कानूनोकेअंतर्गत, एनजीओशको भी "स्ट्रहसलबलोअर्स" माना जाता है।

व्हिसलबलोअर्स वन्यजीव तस्करी के खिलाफ लड़ाई एक शक्तशाली बल हैं !हाल केवषो , वन्यजीव अपराधो खासी बढ़ोत्तरी हुई है, जो कई देशकी सुरक्षा औरशस्थरता को खतरा बन गई है।

बहुत कम गिरफ्तारियोंऔर सजाओं केकारण वन्यजीव तस्करी अरबोडॉलर वाला उद्योग है।

अंदरूनी जानकारी वाले स्ट्रहसलबलोअर्स को प्रोत्साहित करा वन्यजीव अपराधको पता लगाने केकाम कंति लाशदेगा, प्रभावी कानून परवर्तन और स्व-अनुपालन को बढ़ाएगा, तथा विलुप्त होने के कट को उलट देगा।

वन्यजीव अपराध सा य सूचित करना

अगर आपको गलत कामोऔर उन दस्तावेजोकी सीधी जानकारी है जो गैरकानूनी गतिविधियोंकी पुष्ट करते हैं , तोशआप वन्यजीव अपराध को लेकर सचेत कर सकते हैं ।

आप सजस वन्यजीव अपराध को देखते हैं , उसकेसाधो को एकत्र और व्यवस्थित करना बेहद महत्वपूर्ण है। कानूनश परवर्तन ए सियोंकी ओर से उन टिप्स की जांच करने की श्रवना अधिक होती है, सजनकेसमर्थन ठोस सबूत होतेशैं :

- फोटोग्राफ
- ई-मेल
- बिजनेस कार्ड्स
- वैज्ञानिक रिपोर्ट्स
- बिलिंग रिकॉर्ड्स
- बजट और वित्तीय डेटा
- आंतरिक रिपोर्ट्स
- मीटिंग नोट्स
- वीडियो और रिकॉर्डिंग्स
- वैज्ञानिक परीक्षण परिणाम
- ट्रांजिट रूट्स और परिवहन विधियां
- बैंक खाता जानकारी
- रिश्वत और मनी लॉन्ड्रिंग का साक्ष्य

जिनके पास किसी भी देश के वन्यजीव संरक्षण कानूनों की जानकारी है, ऐसे व्यक्तियों को दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि यह सुनिश्चित कराने के लिए वैधानिक प्रतिनिधित्व की मांग करें कि उनकी जानकारी का इस्तेमाल सुरक्षापूर्वक किया जाता है।

व्हिसलब्लोअर्स के लिए पुरस्कार

अंतर्राष्ट्रीय व्हिसलब्लोअर्स को अमेरिकी पुरस्कार कानूनों को तहत विदेशी अधिकारियों की रिश्त की सूचना देने के लिए 30 मिलियन डॉलर से अधिक मिल चुके हैं।

अमेरिकी सरकार ने 31.8 मिलियन डॉलर से अधिक राशि का भुगतान उन गैर-अमेरिकी व्हिसलब्लोअर्स को किया है जिन्होंने उच्च समुद्रों में महासागरीय प्रदूषण की सूचना दी है।

NWC का ग्लोबल वाइल्डलाइफ व्हिसलब्लोअर प्रोग्राम तस्करी तथा अन्य वन्यजीव अपराधों की सूचना देने के लिए अंदरूनी लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए लेसी एक्ट, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेज एक्ट, और फाल्स क्लेमस एक्ट जैसे कानूनों के व्हिसलब्लोअर प्रावधानों का उपयोग करता है।

व्हिसलब्लोअर्स के लिए पुरस्कार और संरक्षण

वन्यजीव अपराधों से लड़ने के लिए तैयार किए गए कई ऐसे मजबूत और अंतर्राष्ट्रीय रूप से लागू होने वाले कानून हैं, जिनमें सशक्त व्हिसलब्लोअर पुरस्कार प्रावधान समाहित हैं।

ये पुरस्कार कानून दुनिया भर के उन व्हिसलब्लोअर्स को सहायता देता है जो जानवर, मछली, पौधे और संकटग्रस्त प्रजातियों को या तो अमेरिका में लाने या फिर अमेरिकी व्यक्तियों अथवा अमेरिका से जुड़ी कंपनियों द्वारा अवैध शर्तों पर, तस्करी और आयात से सहूलियत देने वाले प्रमुख वन्यजीव कानूनों के उल्लंघन का खुलासा करते हैं।

NWC का ग्लोबल वाइल्डलाइफ व्हिसलब्लोअर प्रोग्राम एक सुरक्षित और पूरी तरह से गोपनीय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शर्तों को उपलब्ध कराता है। दुनिया भर के लोग वन्यजीव अपराध की सूचना दे सकते हैं और फिर हर्य व्हिसलब्लोअर्स को शउन वकील से जो ता है जो अमेरिकी प्राधिकारियों को उनकी रिपोर्ट सबमिट कराने और उपयुक्त अमेरिकी कानून (ने) के अंतर्गत पुरस्कार के लिए आवेदन करने में मदद करते हैं।

NWC के ग्लोबल वाइल्डलाइफ व्हिसलब्लोअर प्रोग्राम ने 2016 वाइल्डलाइफ कंडम टेक चैंज, जो कि नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी, स्मथसोनियन इंस्टीट्यूशन, और TRAFFIC की साझेदारी USAID की एक हपल है, का दूध प्रदा। जीता था। प्रोग्राम को द वाइल्डकेट फाउंडेशन से भी अच्छा-खासा अनुदान मिला।

www.whistleblowers.org/wildlife

help@whistleblowers.org